



לֹא	בּוֹ	יִכָּפֵר	אֲשֶׁר	הַכֹּהֵן	לָהֶם	אֶחָת	תּוֹרָה	כְּאֲשֶׁם	כַּחֲטָאֵת	7
उसी-के-लिए	उससे	प्रायश्चित्त-करे-	जो	याजक	उनके-लिए	एक	व्यवस्था	वैसे-दोषबलि	जैसे-पापबलि	
				<a href="#">H3548</a>		<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H8451</a>	<a href="#">H0817</a>		

יְהִיָּה:  
वह-हो  
[H1961](#)

दोषबलि पापबलि के समान है। दोनों के लिए एक जैसे नियम हैं। वह याजक, जो बलि चढ़ाता है, उसको वह प्राप्त करेगा।

לִכְהֵן	הַמִּקְרִיב	אֲשֶׁר	הָעֵלָה	עֹר	אִישׁ	עֲלֹת	אֶת-	הַמִּקְרִיב	וְהַכֹּהֵן	8
याजक-के-लिए	उसने-चढ़ाई	जो	होमबलि-की	खाल	किसी-की	होमबलि	—	जो-चढ़ाए	और-याजक	
<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H7126</a>			<a href="#">H5785</a>	<a href="#">H0376</a>			<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7126</a>	<a href="#">H3548</a>

יְהִיָּה:  
वह-हो  
לֹא  
उसी-की  
[H1961](#)

वह याजक जो बलि चढ़ाता है चमड़ा भी होमबलि से ले सकता है।

מִחֶבֶת	וְעַל-	בְּמִרְחֶשֶׁת	נִעֲשָׂה	וְכֹל-	בְּתַנּוּר	תֹּאפֶה	אֲשֶׁר	מִנְחָה	וְכֹל-	9
तवे-के	और-पर-	कड़ाही-में	जो-बनाई-जाए	और-हर-	तन्दूर-में	पकाई-जाए	जो	अन्नबलि	और-हर-	
<a href="#">H4227</a>		<a href="#">H4802</a>		<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H8574</a>	<a href="#">H0644</a>		<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H3605</a>	

יְהִיָּה:  
वह-हो  
לֹא  
उसी-की  
אֶתָּה  
उसे  
הַמִּקְרִיב  
जो-चढ़ाए  
לִכְהֵן  
याजक-के-लिए  
[H1961](#)

हर एक अन्नबलि चढ़ाने वाले याजक की होती है। याजक उन अन्नबलियों को लेगा जो चूल्हे में पकी हों, या कड़ाही में पकी हों या तवे पर पकी हों।

אִשׁ	תְּהִיָּה	אֶהָרֵן	בְּנֵי	לְכֹל-	וְחִרְבָּה	בְּשֶׁמֶן	בְּלוֹלָה-	מִנְחָה	וְכֹל-	10
प्रत्येक	वह-हो	हारून-के	पुत्रों-के-लिए	सब-	और-सूखी	तेल-से	मिली-हुई-	अन्नबलि	और-हर-	
<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H0175</a>		<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H8081</a>		<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H3605</a>	

כְּאֵחִיו:  
—  
अपने-भाई-की-तरह  
[H0251](#)

अन्नबलि हारून के पुत्रों की होगी। उससे कोई अन्तर नहीं पड़ेगा कि वे सूखी अथवा तेल मिली हैं। हारून के पुत्र याजक समान भागीदार होंगे।

וְזֹאת	תּוֹרַת	זָבַח	הַשְּׁלָמִים	אֲשֶׁר	יִקְרִיב	לִיהוָה:	11
और-यह	व्यवस्था	यज्ञ-की	मेलबलि-के	जो	वह-चढ़ाए	यहोवा-के-लिए	
<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H8451</a>	<a href="#">H2077</a>	<a href="#">H8002</a>		<a href="#">H7126</a>	<a href="#">H3068</a>	

“ये मेलबलि के नियम हैं, जिसे कोई व्यक्ति यहोवा को चढ़ाता है:

אֵם	עַל-	תּוֹרָה	יִקְרִיבֶנָּה	וְהַקְרִיב	עַל-	זָבַח	הַתּוֹרָה	חֲלֹת	מִצּוֹת	12
यदि	के-लिए-	धन्यवाद	वह-उसे-चढ़ाए	तो-वह-चढ़ाए	साथ-	यज्ञ-के	के-धन्यवाद	रोटियाँ	अखमीरी	
		<a href="#">H8426</a>	<a href="#">H7126</a>	<a href="#">H7126</a>		<a href="#">H2077</a>	<a href="#">H8426</a>	<a href="#">H2471</a>	<a href="#">H4682</a>	

בְּלוֹלָת	בְּשֶׁמֶן	וּרְקִיקוֹ	מִצּוֹת	מִשְׁחֵים	בְּשֶׁמֶן	וְסֹלֹת	מִרְבֵּבֶת	חֲלֹת	בְּלוֹלָת	בְּשֶׁמֶן:
तेल-में	तेल-में	और-पपड़ियाँ	अखमीरी	चुपड़ी-हुई	तेल-से	और-मैदा	मिला-हुआ	रोटियाँ	सनी-हुई	तेल-में
<a href="#">H8081</a>	<a href="#">H8081</a>	<a href="#">H7550</a>	<a href="#">H4682</a>	<a href="#">H4886</a>	<a href="#">H8081</a>	<a href="#">H5560</a>	<a href="#">H7246</a>	<a href="#">H2471</a>	<a href="#">H8081</a>	<a href="#">H8081</a>

कोई व्यक्ति मेलबलि अपनी कृतज्ञता प्रकट करने लिए ला सकता है। यदि वह कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बलि लाता है तो उसे तेल मिले अखमीरी फुलके, अखमीरी चपातियाँ और तेल मिले उत्तम आटे के फुलके भी लाने चाहिए।

עַל-	חֲלֹת	לֶחֶם	חֶמֶץ	יִקְרִיב	קָרְבָּנוֹ	עַל-	זָבַח	תּוֹרַת	שְׁלָמִיו:	13
साथ-	रोटियों-के	रोटी	खमीरी	वह-चढ़ाए	अपना-चढ़ावा	साथ-	यज्ञ-के	धन्यवाद	अपनी-मेलबलि-का	
	<a href="#">H2471</a>	<a href="#">H3899</a>		<a href="#">H7126</a>			<a href="#">H2077</a>	<a href="#">H8426</a>	<a href="#">H8002</a>	

उस व्यक्ति को अनपी मेलबलि के लिए खमीरी रोटियों के साथ अपनी बलि लानी चाहिए। यह वह बलि है जिसे कोई व्यक्ति यहोवा के प्रति कृतज्ञता दर्शाने के लिए लाता है।

הִזְרַק जो-छिड़कता-है H2236	לִכְבוֹן याजक-के-लिए H3548	לִיהוּבָה यहोवा-के-लिए H3068	תְּרוּמָה उठाने-की-भेंट H8641	קָרְבָּן चढ़ावे-से H3605	מִכֶּלֶךְ प्रत्येक- H0259	אֶחָד एक H0259	מִמֶּנּוּ उसमें-से H7126	וְהִקְרִיב और-वह-चढ़ाए H7126	14
-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	------------------------------------	----

יְהִיָּה: वह-हो H1961	לוֹ उसी-की H1961	הַשְּׁלָמִים मेलबलियों-का H8002	דָּם लहू H1818	אֶת- — H0853
-----------------------------	------------------------	---------------------------------------	----------------------	--------------------

उन रोटियों में से एक उस याजक की होगी जो मेलबलि के खून को छिड़कता है।

מִמֶּנּוּ उसमें-से H3240	יָבִיחַ वह-छोड़े H3808	לֹא- न- H3808	יֹאכֵל खाया-जाए H0398	קָרְבָּנוֹ उसके-चढ़ावे-के H3117	בְּיוֹם दिन-में H3117	שְׁלָמִי उसकी-मेलबलियों-का H8002	תּוֹרַת धन्यवाद H8426	זָבַח यज्ञ-का H2077	וּבִשְׂרָ और-माँस H1320	15
--------------------------------	------------------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	----

עַד- तक- H5704	בְּקָרָ: सवरे-के H1242
----------------------	------------------------------

इस मेलबलि का माँस उसी दिन खाया जाना चाहिए जिस दिन यह चढ़ाया जाए। कोई व्यक्ति परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए यह भेंट चढ़ाता है। किन्तु कुछ भी माँस अगले दिन के लिए नहीं बचना चाहिए।

זָבַח उसके-यज्ञ-को H2077	אֶת- — H0853	הִקְרִיבוּ उसके-चढ़ाने-के H7126	בְּיוֹם दिन-में H3117	קָרְבָּנוֹ उसके-चढ़ावे-का H3117	זָבַח यज्ञ H2077	נִדְבָה स्वेच्छाबलि H5071	אוֹ या H5088	וְגֵר मन्नत H5088	וְאִם- और-यदि- H5088	16
--------------------------------	--------------------	---------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------	----

יֹאכֵל: खाया-जाए H0398	מִמֶּנּוּ उसमें-से H0398	וְהִנּוּחָהּ और-बचा-हुआ H3498	וּמִמָּחֹרַת और-दूसरे-दिन H4283	יֹאכֵל खाया-जाए H0398
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

“कोई व्यक्ति मेलबलि यहोवा को केवल भेंट चढ़ाने की इच्छा से ला सकता है अथवा सम्भवतः उस व्यक्ति ने यहोवा को विशेष वचन दिया हो। यदि यह सत्य है तो बलि उसी दिन खायी जानी चाहिए जिस दिन वह उसे चढ़ाये। यदि कुछ बच जाए तो उसे अगले दिन खा लेना चाहिए।

יִשְׂרָף: जलाया-जाए H8313	בְּאֵשׁ आग-में H0784	הַשְּׁלִישִׁי तीसरे H7992	בְּיוֹם दिन-में H3117	הַזָּבַח यज्ञ-के H2077	מִבֶּשֶׂר माँस-से H1320	וְהִנּוּחָהּ और-बचा-हुआ H3498	17
---------------------------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	----

किन्तु यदि इस बलि का कुछ माँस फिर भी तीसरे दिन के लिए बच जाए तो उसे आग में जला दिया जाना चाहिए।

לֹא नहीं H3808	הַשְּׁלִישִׁי तीसरे H7992	בְּיוֹם दिन-में H3117	שְׁלָמִי उसकी-मेलबलियों-के H8002	זָבַח यज्ञ-के H2077	מִבֶּשֶׂר- माँस-से- H1320	יֹאכֵל खाया-जाए H0398	הָאֵכָל खाया-जाए H0398	וְאִם और-यदि H0398	18
----------------------	---------------------------------	-----------------------------	--	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------	----

הָאֵכָל जो-खाए H0398	וְהִנּוּחָהּ और-प्राण H5315	יְהִיָּה वह-हो H1961	פְּנוּל घुणित-वस्तु H6292	לוֹ उसके-लिए H2803	יִקָּח गिना-जाए H2803	לֹא नहीं H3808	אֵתוֹ उसे H0853	הַמִּקְרִיב जो-चढ़ाता-है H7126	וְרָצָהּ ग्रहण-किया-जाए H7521
----------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

מִמֶּנּוּ उसमें-से H5375	עֹנָה अपना-अधर्म H5771	הַנֶּשֶׂא: वह-उठाए H5375
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

यदि कोई व्यक्ति मेलबलि का माँस तीसरे दिन खाता है तो यहोवा उस व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होगा। यहोवा उस बलि को उसके लिए महत्व नहीं देगा। यह बलि घुणित वस्तु बन जाएगी और यदि कोई व्यक्ति उस माँस का कुछ भी खाता है तो वह अपने पाप के लिए उत्तरदायी होगा।

כָּל- हर- H3605	וְהִבְשִׂר और-माँस H1320	יִשְׂרָף जलाया-जाए H8313	בְּאֵשׁ आग-में H0784	יֹאכֵל खाया-जाए H0398	לֹא नहीं H3808	טָמֵא अशुद्ध-चीज़-को H2931	בְּכֹל- किसी- H3605	יִנּוּעַ छुए H5060	אֲשֶׁר- जो- H0853	וְהִבְשִׂר और-माँस H1320	19
-----------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------------	----

טָהוֹר शुद्ध H2889	יֹאכֵל वह-खाए H0398	בְּשֶׂר: माँस H1320
--------------------------	---------------------------	---------------------------

“लोगों को ऐसा माँस भी नहीं खाना चाहिए जिसे कोई अशुद्ध वस्तु छू ले। उन्हें इस माँस को आग में जला देना चाहिए। वे सभी व्यक्ति जो शुद्ध हों, मेलबलि का माँस खा सकते हैं।



26 וְכָל-רֵם לֹא תֹאכְלוּ בְּכֹל מִוֹשְׁבֵיכֶם לְעֹרֹף וְלִבְהֶמָה:  
 और-कोई-भी-लहू नहीं लहू खाओ अपने-सब-तुम-खाओ निवासों-में पक्षी-का या-पशु-का  
[H0929](#) [H5775](#) [H4186](#) [H3605](#) [H0398](#) [H3808](#) [H1818](#) [H3605](#)

“तुम चाहे जहाँ भी रहो, तुम्हें किसी पक्षी या जानवर का खून कभी नहीं खाना चाहिए।

27 כָּל-נֶפֶשׁ אֲשֶׁר-חָאָקְלָהּ כָּל-רֵם וְנִכְרְתָהּ הַנֶּפֶשׁ הַהוּא מֵעַמִּיהָ:  
 कोई-भी-खाए जो-खाए कोई-भी-लहू लहू तो-काट-दिया-जाए वह-प्राण वह-प्राण अपने-लोगों-से  
[H1818](#) [H3605](#) [H0398](#) [H5315](#) [H3605](#) [H1931](#) [H5315](#) [H3772](#)

यदि कोई व्यक्ति कुछ खून खाता है तो उस व्यक्ति को उस के लोगों से अलग कर दिया जाना चाहिए।”

28 וַיְדַבֵּר וַיְהוּהָ אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר:  
 और-बोला और-बोला से-यहोवा यहोवा और-बोला मूसा से-यहोवा कहते-हुए  
[H0559](#) [H4872](#) [H0413](#) [H3068](#) [H1696](#)

यहोवा ने मूसा से कहा,

29 דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר הַמִּקְרָיִב אֶת-זֶבַח שְׁלָמֵיךָ לִיהוָה  
 बोल से-पुत्रों इस्राएल-के कहते-हुए जो-चढ़ाए यज्ञ अपनी-मेलबलियों-का यज्ञ यज्ञ  
[H3068](#) [H8002](#) [H2077](#) [H0853](#) [H7126](#) [H0559](#) [H3478](#) [H0413](#) [H1696](#)  
 וְבִיאָ וְלָאָה אֶת-קַרְבָּנוֹ לִיהוָה מִזֶּבַח שְׁלָמֵיךָ  
 वह-लाए वह-लाए अपनी-चढ़ावा यज्ञ-से यहोवा-के-लिए अपनी-मेलबलियों-के यज्ञ-से  
[H8002](#) [H2077](#) [H3068](#) [H0853](#) [H0935](#)

“इस्राएल के लोगों से कहो: यदि कोई व्यक्ति यहोवा को मेलबलि लाए तो उस व्यक्ति को उस भेंट का एक भाग यहोवा को देना चाहिए।

30 יָדָיו תְּבִיאֵנָה אֶת-תְּבִיאֵנָה אֶת-אֲשֵׁי יְהוָה אֶת-חַרְבֵי הַחֶלֶב עַל-הַחֹזֶה יְבִיאֵנּוּ אֶת  
 अपने-हाथों-से वह-लाए वह-लाए अग्निबलियाँ यहोवा-की अग्निबलियाँ चर्बी-को चर्बी-को साथ-छाती-के छाती-के  
[H0853](#) [H0935](#) [H2373](#) [H2459](#) [H0853](#) [H3068](#) [H0801](#) [H0853](#) [H0935](#) [H3027](#)  
 הַחֹזֶה לְהַגִּיף אֶת-הַחֹזֶה לְפָנַי יְהוָה:  
 छाती-के-लिए हिलाने-के-लिए छेद-करके हिलाने-की-भेंट-करके सामने यहोवा-के  
[H3068](#) [H6440](#) [H8573](#) [H0853](#) [H2373](#)

भेंट का वह भाग आग में जलाया जाएगा। उसे उस भेंट का वह भाग अपने हाथ में लेकर चलना चाहिए। उसे जानवर की छाती की चर्बी लेकर चलना चाहिए और छाती को याजक के पास ले जाना चाहिए। छाती को यहोवा के सामने ऊपर उठाया जायेगा। यह उत्तोलन बलि होगी।

31 וְהִקְטִיר וְהִקְטִיר אֶת-חַרְבֵי הַחֶלֶב הַמִּזְבֵּחַ וְהִתְּוָה לְפָנָיו וְלִבְנָיו  
 और-जलाए और-जलाए याजक याजक चर्बी-को चर्बी-को वेदी-पर वेदी-पर और-हो और-हो और-उसके-पुत्रों-के-लिए और-उसके-पुत्रों-के-लिए  
[H0175](#) [H2373](#) [H1961](#) [H4196](#) [H2459](#) [H0853](#) [H3548](#)

तब याजक को वेदी पर चर्बी जलानी चाहिए। किन्तु जानवर की छाती हारून और उसके पुत्रों की होगी।

32 וְאֵת-שׁוֹק הַיָּמִין תִּתֵּן תִּתֵּן תְּרוּמָה לַכֹּהֵן מִזֶּבַח שְׁלָמֵיכֶם  
 और-जाँघ और-जाँघ तुम-दो उठाने-की-भेंट याजक-को अपनी-मेलबलियों-के-यज्ञों-से अपनी-मेलबलियों-से  
[H8002](#) [H2077](#) [H3548](#) [H8641](#) [H5414](#) [H3225](#) [H7785](#) [H0853](#)

मेलबलि से दायीं जांघ हारून के पुत्रों में से याजक को देनी चाहिये।

33 הַמִּקְרָיִב אֶת-רֵם הַשְּׁלָמִים וְאֶת-רֵם הַחֶלֶב מִבְּנֵי אֶהֱרֹן לְוִי תִּתֵּן שׁוֹק  
 जो-चढ़ाता-है और-लहू मेलबलियों-का लहू और-मेलबलियों-का लहू चर्बी-को चर्बी-को पुत्रों-में-से हारून-के हारून-के उसी-की हाँघ हाँघ  
[H1785](#) [H1961](#) [H0175](#) [H2459](#) [H0853](#) [H8002](#) [H1818](#) [H0853](#) [H7126](#)  
 הַיָּמִין לְמַנְהָ: הַיָּמִין  
 दाहिनी-भाग-के-रूप-में दाहिनी  
[H4490](#) [H3225](#)

मेलबलि में से दायीं जांघ उस याजक की होगी जो मेलबलि की चर्बी और खून चढ़ाता है।

34 כִּי אֶת-חַוָּה הִתְנוּפָה וְאֵת שׁוֹק הִתְרוּמָה לְקַחְתִּי מֵאֵת בְּנֵי-כּוֹרְחַי  
 क्योंकि — छाती हिलाने-की-भेंट-की और- जाँघ उठाने-की-भेंट-की मैंने-ली-है से  
[H0854](#) [H3947](#) [H8641](#) [H7785](#) [H0853](#) [H8573](#) [H2373](#) [H0853](#)

יִשְׂרָאֵל מִזְבְּחֵי שְׁלֵמִים וְאֵתוֹ אֶתֶם לְאַהֲרֹן הַכֹּהֵן וּלְבָנָיו לְחֶק-  
 इस्राएल-के यज्ञों-से उनकी-मेलबलियों-के और-मैंने-दी-है उन्हें और-मैंने-दी-है हासून को याजक और-उसके-पुत्रों-को  
[H2706](#) [H3548](#) [H0175](#) [H0853](#) [H5414](#) [H8002](#) [H2077](#) [H3478](#)

עוֹלָם מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל :  
 सदा-की से पुत्रों इस्राएल-के  
[H3478](#) [H0854](#) [H5769](#)

में(यहोवा) उत्तोलन बलि की छाती तथा मेलबलि की दायीं जांघ इस्राएल के लोगों से ले रहा हूँ और मैं उन चीजों को हासून और उसके पुत्रों को दे रहा हूँ। इस्राएल के लोगों के लिए यह नियम सदा के लिए होगा।”

35 וְאֵת מִשְׁחַת אֶהָרֹן וּמִשְׁחַת אֶתֶם וּמִשְׁחַת בְּנָיו מֵאֲשֵׁי יְהוָה בְּיוֹם-  
 यह और-अभिषेक-का-भाग हासून-का और-अभिषेक-का-भाग उसके-पुत्रों-का अग्निबलियों-से यहोवा-की दिन-में  
[H3117](#) [H3068](#) [H0801](#) [H175](#) [H2063](#)

הַקָּרִיב וְאֶתֶם לְכַהֵן לַיהוָה :  
 उसने-चढ़ाया उन्हें याजक-होने-के-लिए यहोवा-के-लिए  
[H3068](#) [H3547](#) [H0853](#) [H7126](#)

यहोवा को आग द्वारा दी गी भेंट हासून और उसके पुत्रों की है, जब कभी हासून और उसके पुत्र यहोवा के याजक के रूप में सेवा करते हैं तब वे बलि का वह भाग पाते हैं।

36 אֲשֶׁר אֵזָא צִוָּה יְהוָה לָתֵת לְהֵם בְּיוֹם לְחֶם  
 जिसे आज़ा-दी इस्राएल-के पुत्रों से उन्हें उसने-अभिषेक-किया दिन-में उन्हें देने-के-लिए यहोवा-ने आज्ञा-दी जिसे  
[H3478](#) [H0854](#) [H0853](#) [H4886](#) [H3117](#) [H5414](#) [H3068](#) [H6680](#)

חֶקְתָּ וְעוֹלָם לְדֹרֹתָם :  
 विधि सदा-की उनकी-पीढ़ियों-के-लिए  
[H1755](#) [H5769](#) [H2708](#)

जिस समय यहोवा ने याजकों का अभिषेक किया उसी समय उन्होंने इस्राएल के लोगों को वे भाग याजकों को देने का आदेश दिया। वे भाग सदा उनकी पीढ़ी याकों को दिए जाने हैं।

37 וְאֵת הַתּוֹרָה וְאֵת הַמִּצְוֹת וְאֵת הַמִּשְׁחָה וְאֵת הַמִּשְׁחָה וְאֵת הַמִּשְׁחָה  
 यह और-व्यवस्था और-पापबलि-के-लिए और-दोषबलि-के-लिए और-अन्नबलि-के-लिए होमबलि-के-लिए  
[H0817](#) [H4503](#) [H8451](#) [H2063](#)

וְאֵת הַמִּשְׁחָה וְאֵת הַמִּשְׁחָה וְאֵת הַמִּשְׁחָה :  
 और-संस्कारबलियों-के-लिए और-यज्ञ-के-लिए मेलबलियों-के-लिए  
[H8002](#) [H2077](#) [H4394](#)

ये होमबलि, अन्नबलि, पापबलि, दोषबलि, याजकों की नियुक्ति, और मेलबलि के नियम हैं।

38 אֲשֶׁר אֵזָא צִוָּה יְהוָה אֶת-מֹשֶׁה בְּהַר-סִינַי בְּיוֹם צִוָּתוֹ אֶת-בְּנֵי-  
 जिसे आज़ा-दी यहोवा-ने को-मूसा पर-सीनै-पर दिन-में उसकी-आज्ञा-देने-के  
[H0853](#) [H6680](#) [H3117](#) [H5514](#) [H2022](#) [H4872](#) [H0853](#) [H3068](#) [H6680](#)

יִשְׂרָאֵל לְחֶקְתָּ וְעוֹלָם לְדֹרֹתָם :  
 इस्राएल-के चढ़ाने-के-लिए जंगल-में यहोवा-के-लिए अपने-चढ़ावे  
[H5514](#) [H3068](#) [H0853](#) [H7126](#) [H3478](#)

यहोवा ने सीनै पर्वत पर ये नियम मूसा क दिए। यहोवा ने ये नियम उस दिन दिए जिस दिन उसने इस्राएल के लोगों को सीनै मरुभूमि में यहोवा के लिए अपनी भेंट लाने का आदेश दिया था।